



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]  
No. 41]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2003/भाष 7, 1924  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2003/MAGHA 7, 1924

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 61(अ).—राष्ट्रपति, एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा-नियमावली 1962 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय-सेवा (संशोधन) नियम, 2002 है ।  
(2) ये नियम जून 17, 1995 से प्रवृत्त हुए माने जाएँ ।
2. केन्द्रीय सचिवालय-सेवा-नियमावली, 1962 में -  
(क) नियम 18, के उप नियम (3) में-  
(i) पैराग्राफ 1 में, चयन-ग्रेड और ग्रेड-1 से संबंधित 'टिप्पणी' विलोपित कर दी जाए ।

- (ii) पैराग्राफ II में अनुभाग अधिकारी ग्रेड तथा सहायक ग्रेड से संबंधित टिप्पणी विलोपित कर दी जाए ।
- (ख) चौथी अनुसूची में, विनियम 3 के उप-विनियम (2) में, 'बरंतुक' में 'टिप्पणी' विलोपित कर दी जाए ।

स्पष्टीकरण-परक टिप्पणी- संविधान के (पचासीवें संशोधन) अधिनियम, 2001 के अनुसरण में इस विभाग के दिनांक जनवरी 21, 2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/1/2001 स्था. (घ) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की आरक्षण-नियमों से पदोन्नति होने के मामले में, उन्हें अपनी गरिष्ठता बरकरार रखने देने की दृष्टि से, केन्द्र-सरकार ने संविधान का अनुच्छेद 16 (4क), संविधान में शामिल किए जाने की तारीख अर्थात् जून 17, 1995 से ही संशोधित करते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक जनवरी 30, 1997 के का.ज्ञा. संख्या 20011/1/96-स्था.(घ) को निम्नभावी करने का निर्णय किया है ।

[फ़. सं. 21/7/97-के.से.-I]

कर्ण सिंह, निदेशक (केन्द्रीय सेवाएं)

टिप्पणी :— मूल नियम भारत-सरकार, गृह-मंत्रालय के दिनांक सितंबर 20 1962 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1306 द्वारा भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-III में प्रकाशित किए गए थे और उन्हें बाद में

निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किया गया :-

क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक	गजट विवरण	पृष्ठ सं.	अधिसूचना	
			भाग, खण्ड, उप खण्ड		मिसिल सं.	दिनांक
1.	500	15.04.67	II 3 (I)	560	6/68/65-सीएस.।	31.03.67
2.	164	31.01.70	- तथैव-	492	4/60/69-सीएस.।	19.01.70
3.	908	13.06.70	- तथैव-	2139,2140	6/45/68-सीएस.।	25.05.70
4.	977	04.07.70	- तथैव-	2300,2301	5/49/67-सीएस.।	26.06.70
5.	1803	24.10.70	- तथैव-	3934	1/2/70-सीएस.।	05.10.70
6.	30	02.01.71	- तथैव-	88	1/3/70-सीएस.।	22.12.70
7.	908	05.08.72	- तथैव-	1948	5/21/72-सीएस.।	18.06.72
8.	509	19.05.73	- तथैव-	980	1/6/72-सीएस.।	07.05.73
9.	1090	06.10.73	- तथैव-	1934,1935	6/28/72-सीएस.।	03.10.73
10.	453	11.05.74	- तथैव-	1030	6/24/73-सीएस.।	29.04.74
11.	2368	13.09.75	- तथैव-	2585,2586	10/18/74- सीएस.। (I)	29.08.75
12.	538	17.04.76	- तथैव-	1033,1034	8/11/75-सीएस.।	30.03.77
13.	359	19.03.77	- तथैव-	935	1/7/75-सीएस.।	01.03.77
14.	409	26.03.77	- तथैव-	993	1/5/76	07.03.77
15.	575	07.05.77	- तथैव-	1525	11/2/76-सीएस.।	11.04.77
16.	825	02.07.77	- तथैव-	1962	5/52/75-सीएस.।	13.06.77
17.	986	30.07.77	- तथैव-	2275	8/20/75-सीएस.।	14.07.77
18.	305	25.02.78	- तथैव-	443	8/14/75-सीएस.।	21.02.78
19.	916	22.07.78	- तथैव-	1666	8/10/78-सीएस.।	05.07.78
20.	1183	30.09.78	- तथैव-	2232	21/20/78-सीएस.।	19.09.78
21.	258(अ)	23.03.79	- तथैव-	80	4/73/78-सीएस.।	23.03.79
22.	1484	15.12.79	- तथैव-	2902	4/52/78-सीएस.।	29.11.79
23.	1512	22.12.79	- तथैव-	2962	5/26/77-सीएस.।	15.12.79
24.	449	26.04.80	- तथैव-	582	11/4/79-सीएस.।	11.04.80
25.	175	20.02.82	- तथैव-	482	5/71/81-सीएस.।	10.02.82
26.	897	25.08.84	- तथैव-	2191	1/8/83-सीएस.।	28.07.84
27.	21	12.01.85	- तथैव-	57	5/8/80-सीएस.।	29.12.84
28.	81	26.01.85	- तथैव-	199	1/1/84-सीएस.।	08.01.85
29.	531	30.10.93	- तथैव-	1866	11/2/89-सीएस.।	30.07.93
30.	27	08.01.94	- तथैव-	63	1/4/92-सीएस.।	08.12.93
31.	13(अ)	21.06.95	- तथैव-	2	5/23/94-सीएस.।	21.06.95
32.	870(अ)	28.09.98	- तथैव-	647	21/7/97-सीएस.।	28.09.98
33.	153(अ)	24.02.99	- तथैव-	114	16/4/88-सीएस.।	26.02.99
34.	195(अ)	08.03.99	- तथैव-	3-4	21/14/97-सीएस.।	08.03.99

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

(Department of Personnel and Training)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2003

**G.S.R. 61(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Service Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Service (Amendment) Rules, 2002.  
(2) They shall be deemed to have come into force on the 17<sup>th</sup> day of June, 1995.
2. In the Central Secretariat Service Rules, 1962, -
  - (a) in rule 18, in sub-rule (3), -
    - (i) in paragraph I, the "Note" relating to Selection Grade and Grade-I shall be omitted;
    - (ii) in paragraph II, the "Note" relating to Section Officers' Grade and Assistants' Grade shall be omitted,
  - (b) in the Fourth Schedule, in regulation 3, in sub-regulation (2), in the proviso, the "Note" shall be omitted.

**Explanatory note** – In conformity with the instructions issued vide this Department's O.M.No.20011/1/2001-Estt.(D), dated the 21<sup>st</sup> January, 2002, pursuant to the Constitution (Eighty-Fifth Amendment) Act, 2001, the Central Government has decided to negate the effects of the Department of Personnel and Training O.M. No.20011/1/96-Estt.(D), dated the 30<sup>th</sup> January, 1997 by amending article 16 (4A) of the Constitution right from the date of its inclusion in the Constitution, i.e. the 17<sup>th</sup> day of June, 1995, with a view to allow the Government employees belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to retain the seniority in the case of promotion by virtue of rule of reservation.

[F.No. 21/797-CS-I]

KARAN SINGH, Director (Central Services)

Foot Note :— The Principal Rules were published vide the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. G.S.R. 1306 dated the 20th September, 1962, Gazette of India, Part II, Section III and subsequently amended by :—

Sl No.	G.S.R No.	Dated	Gazette Particulars		Page No.	Notification	
			Pt.	Section Sub-Section		File Number	Dated
01.	500	15.04.67	II	3 (i)	560	6/68/65-CS.I	31.03.67
02.	164	31.01.70		- do -	492	4/60/69-CS.I	19.01.70
03.	908	13.06.70		- do -	2139,2140	6/45/68-CS.I	25.05.70
04.	977	04.07.70		- do -	2300,2301	5/49/67-CS.I	26.06.70
05.	1803	24.10.70		- do -	3934	1/2/70-CS.I	05.10.70
06.	30	02.01.71		- do -	88	1/3/70-CS.I	22.12.70
07.	908	05.08.72		- do -	1948	5/21/72-CS.I	18.06.72
08.	509	19.05.73		- do -	980	1/6/72 -CS.I	07.05.73
09.	1090	06.10.73		- do -	1934,1935	6/28/72-CS.I	03.10.73
10.	453	11.05.74		- do -	1030	6/24/73-CS.I	29.04.74
11.	2368	13.09.75		- do -	2585,2586	10/18/74-CS.II(i)	29.08.75
12.	538	17.04.76		- do -	1033,1034	8/11/75-CS.I	30.03.77
13.	359	19.03.77		- do -	935	1/7/75-CS.I	01.03.77
14.	409	26.03.77		- do -	993	1/5/76	07.03.77
15.	575	07.05.77		- do -	1525	11/2/76-CS.I	11.04.77
16.	825	02.07.77		- do -	1962	5/52/75-CS.I	13.06.77
17.	986	30.07.77		- do -	2275	8/20/75-CS.I	14.07.77
18.	305	25.02.78		- do -	443	8/14/75-CS.I	21.02.78
19.	916	22.07.78		- do -	1666	8/10/78-CS.I	05.07.78
20.	1183	30.09.78		- do -	2232	21/20/78-CS.I	19.09.78
21.	258(E)	23.03.79		- do -	80	4/73/78-CS.I	23.03.79
22.	1484	15.12.79		- do -	2902	4/52/78-CS.I	29.11.79
23.	1512	22.12.79		- do -	2962	5/26/77-CS.I	15.12.79
24.	449	26.04.80		- do -	582	11/4/79-CS.I	11.04.80
25.	175	20.02.82		- do -	482	5/71/81-CS.I	10.02.82
26.	897	25.08.84		- do -	2191	1/8/83-CS.I	28.07.84
27.	21	12.01.85		- do -	57	5/8/80-CS.I	29.12.84
28.	81	26.01.85		- do -	199	1/1/84-CS.I	08.01.85
29.	531	30.10.93		- do -	1866	11/2/89-CS.I	30.07.93
30.	27	08.01.94		- do -	63	1/4/92-CS.I	08.12.93
31.	13(E)	21.06.95		- do -	2	5/23/94-CS.I	21.06.95
32.	870(E)	28.09.98		- do -	647	21/7/97-CS.I	28.09.98
33.	153(E)	24.02.99		- do -	114	16/4/88-CS.I	26.02.99
34.	195(E)	08.03.99		- do -	3-4	21/14/97-CS.I	08.03.99

2304F/2-3